

SECTION C (खंड स)

Attempt 1 question out of 2.

Each question carries 9 marks.

2 में से 1 प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है।

11. Trade brings benefits to all countries, still we often see countries undertaking strategic methods of protection. With reference to this discuss the cost of protection. (9)

व्यापार सभी देशों को लाभ पहुँचाता है, फिर भी हम अक्सर देशों को सुरक्षा के रणनीतिक तरीके अपनाते हुए देखते हैं। इसके संदर्भ में सुरक्षा की लागत पर चर्चा कीजिए।

12. Write a short note on **any three** of the following : (9)

- (a) Dumping
- (b) Law of comparative advantage
- (c) Infant Industry
- (d) Terms of trade

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) डंपिंग
- (ख) तुलनात्मक लाभ का नियम
- (ग) शिशु उद्योग
- (घ) व्यापार की शर्तें

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 2918

I

Unique Paper Code : 2274002003

Name of the Paper : Essentials of Economics

Name of the Course : **Generic Elective**

Semester : III / IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has 3 sections. **ALL SECTIONS** must be attempted.
3. Wherever mentioned please use diagrams. Marks will be deducted if diagrams are not used.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है।
3. जहाँ भी उल्लेख किया गया है, कृपया आरेख का उपयोग करें। यदि आरेख का उपयोग नहीं किया गया तो अंक काट लिए जाएँगे।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

SECTION A (खंड अ)*Attempt any 3 out of 5.**Each question carries 14 marks.***5 में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का है।**

1. (a) Explain the concept of Production Possibility curve (PPC), also illustrate the phenomenon of increasing opportunity cost with the help of PPC. (10)
- (b) Define **any one** of the following : (4)
Allocative efficiency
Productive efficiency

(ग) अमेरिकी डॉलर (विदेशी राष्ट्र की मुद्रा) भारतीय रुपए (स्वदेशी राष्ट्र की मुद्रा) के सापेक्ष मजबूत होता है।

9. Show the impact of expansionary fiscal policy on short run and long macro-economic equilibrium situation. (13)

अल्पावधि और दीर्घावधि वृहद आर्थिक संतुलन स्थिति पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति के प्रभाव को दर्शाइए।

10. (i) Why aggregate demand curve is downward sloping? (5)

- (ii) Write a short note on **any two** of the following : (8)

- (a) Inflation
- (b) Automatic stabilizers
- (c) Natural rate of employment

- (i) समग्र मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है?
- (ii) निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
(क) मुद्रास्फीति
(ख) स्वचालित स्थिरीकरण
(ग) रोजगार की प्राकृतिक दर

(i) विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी पर विस्तार से चर्चा कीजिए, जो बेरोजगारी तब भी बनी रहती है, जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर संचालित होती है।

(ii) श्रम शक्ति भागीदारी दर की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

8. Show the impact on aggregate demand curve of home nation for the following cases. (13)

(a) The Government of India announces an increase in infrastructure spending.

(b) Due to the favorable situation in the economy, the households expect a rise in their income.

(c) The US dollar (foreign nation currency) strengthens relative to Indian rupee (home nation currency).

निम्नलिखित मामलों में गृह राष्ट्र के कुल मांग वक्र पर प्रभाव दर्शाइए।

(क) भारत सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि की घोषणा करती है।

(ख) अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति के कारण, परिवारों को अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद है।

(क) उत्पादन संभावना वक्र (PPC) की अवधारणा को समझाइए, साथ ही PPC की सहायता से अवसर लागत में वृद्धि की घटना को भी स्पष्ट कीजिए।

(ख) निम्नलिखित में से किसी एक को परिभाषित कीजिए :

आवंटन दक्षता

उत्पादक दक्षता

2. (i) Explain how a situation of surplus is created when the government fixes a price ceiling in the housing market. (10)

(ii) Briefly discuss 'Law of Demand'. (4)

(i) समझाइए कि जब सरकार आवास बाजार में मूल्य सीमा तय करती है तो अधिशेष की स्थिति कैसे बनती है।

(ii) 'मांग के नियम' पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

3. (i) Discuss derived demand. Mention any three factors responsible for a shift in labor demand curve. (9)

(ii) Describe the concept of backward bending supply curve. (5)

- (i) व्युत्पन्न मांग पर चर्चा कीजिए। श्रम मांग वक्र में बदलाव के लिए जिम्मेदार किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख कीजिए।
- (ii) पीछे झुकने वाले आपूर्ति वक्र की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
4. (i) Compare monopoly with perfectly competitive market with the help of any four appropriate parameters. (6)
- (ii) Briefly elucidate consumer surplus, producer surplus and dead-weight loss. (8)
- (i) किसी भी चार उपयुक्त मापदंडों की मदद से एकाधिकार की तुलना पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार से कीजिए।
- (ii) उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष और मृत भार हानि पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
5. (i) Suppose government imposes a tax on car manufacturers. Show the incidence of tax on consumers and producers. (10)
- (ii) Write a short note on **any one** of the following : (4)
- (a) Complementary goods
- (b) Substitute goods

- (i) मान लीजिए सरकार कार निर्माताओं पर कर लगाती है। उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर कर का प्रभाव दर्शाइए।
- (ii) निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
- (क) पूरक वस्तुएँ
- (ख) स्थानापन्न वस्तुएँ

SECTION B (खंड ब)

Attempt any 3 questions out of 5.

Each question carries 13 marks.

5 में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 13 अंक का है।

6. Define GDP and NDP. Explain the expenditure method of measuring GDP in detail. (5+8)
- जीडीपी और एनडीपी को परिभाषित कीजिए। जीडीपी मापने की व्यय विधि को विस्तार से समझाइए।
7. (i) Discuss in detail the different types of unemployment, which unemployment persist even when economy operates at full employment level. (9)
- (ii) Briefly elucidate the concept of labor force participation rate. (4)